

10
Molq



TEST REQUISITION FORM

Patient Details

First Name: Jyoti Last Name:
Age: 32 Gender: Male Female
Address:
Contact No.:
E-mail ID:
Referred by: Contact No.:
For Maternal Screening - Date of Birth: DD MM YYYY
Weight: kg. Height: ft inches, LMP Last Ultrasound Report

Billing Information

Client Name: Swastik Path Lab
Client ID: Badshapur
Total Amount:
Amount Received: Receipt No.:
Amount Balance / Due:
Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- Serum Bone Marrow CSF
Plasma: EDTA/FL/CIT FN Aspirate Fluid
SST Tissue Formalin BAL
W. Blood EDTA Paraffin Block Sputum
W. Blood Fluoride Smear Urine
W. Blood Heparin Slide (H&E) Stool
W. Blood Sodium Citrate Pus Swab
Semen Blood Culture Bottle Others

Other Sample Type / Source: DE

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen
Date: Time:
Patient ID No. of vials/container

Signature of Accessioning Officer(s)

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)
Biospy

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Table with 2 columns: Sample / Vial Type, Vial ID Barcode. Includes barcode 10324818.

Total No. of Vials/Container

Specimen Collection Information

Date: Time:
Fasting: Yes No Fasting Period: Hrs.
Collection by:
Urine Volume: ml Hrs.

Patient Consent: I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates, my personal information including but not limited to any condition/ disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publically available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to the access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer: For any test/service related complaint/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Ultrakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the test requested.

रोगी सहमति: मैं मोल्क्यू प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि इस जानकारी को साझा उस सीमा तक की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को दोबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध कराया था, उसमें से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कभी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यू प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति: किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यू प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए गए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

10/10/10

10/10/10

(10)

10/10

Jyoti W. S. Naresh

Age 32 yr F.

Address Ghosala, fourth city - 2.

Admitted with

D. of Ho DuB x 6 Months

D. fibroid uterus

operation: hysterectomy

oophorectomy done

dated: 11/11/80

Prosthy Sample

for histopathology.

Ra
11/11/80